



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29]

नई दिल्ली, सितम्बर 7—सितम्बर 13, 2008, शनिवार/भाद्र 16—भाद्र 22, 1930

No. 29]

NEW DELHI, SEPTEMBER 7—SEPTEMBER 13, 2008, SATURDAY/BHADRA 16—BHADRA 22, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2008

आ. अ. 73.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट असम की विधान सभा, 2006 के साधारण निर्वाचन के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए विरहित घोषित करता है :-

सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निर्वाचन का कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2006	74 साधारण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री सिरिल लेना थोप्यो, ग्राम- भुमन चापरा, पो.डॉ. पो. आ. विन्दुकुर्ग, जिला-सोनितपुर, असम	निर्वाचन क्षेत्रों का लक्ष्य सम्भाल करने में असमर्थ रहे
2.	-बही-	-बही-	श्री दिप बोधांकुर ग्राम एगवाड़ी ग्राम, पो. आ. विस्वनाथ, चरिवाड़ी, जिला-सोनितपुर, असम	बही
3.	बही	-बही	लता लाकरा (तिरु) ग्राम हुसफुटा, पो.आ. भोसाइगांव, जिला-कोकराझार, असम	बही
4.	-बही-	78 गौहट्टी निर्वाचन सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री केशव भोगोई, ग्राम-दुबिया गांव, पो.आ. दुबिया, जिला-सोनितपुर, असम	बही
5.	-बही	-बही	श्री एम. चन्द्रा, श्रीरंगरह, ग्राम-कुकुलचोच, पो.आ. दिहालुमरा, जिला-सोनितपुर, असम	बही
6.	बही	90 अमृतमन्द निर्वाचन सभा निर्वाचन क्षेत्र	जयुल हुसैन, ग्राम-रसालुगांव, पो.आ. कुमरमांज, नगांव, असम	बही

[स.स.असम, विधान सभा, 2006]

संलग्न अ.

भारतवासी नृसिंह, अधिकारी

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2008

O. N. 73.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly of Assam, 2006 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said Table, and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of election	Number & Name of Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Legislative Assembly, 2006	74-Rangapara Assembly Constituency	Shri Cyril Lang Toppo, Vill. Old Ghogra T.E. P.O. Bindukuri, District Sonitpur, Assam.	Failed to lodge account of election expenses
2.	-do-	-do-	Shri Dwip Borthakur, Vill. Erabar, Bhag P.O.- Biswanath, Chariati, District Sonitpur, Assam.	-do-
3.	-do-	-do-	Lata Lakra (Tiro), Vill. Hurafta, P.O. Gosaigaon, District Kokrajhar, Assam.	-do-
4	-do-	78-Gohpur Assembly Constituency	Shri Keshab Gogoi, Vill. Dubia Gaon, P.O. Dubia, Sonitpur, Assam	-do-
5.	-do-	-do-	Shri Papu Chandra Borborah, Vill. Kakurachowa P.O.- Difalusatra, District Sonitpur, Assam.	-do-
6.	-do-	90-Jamunamukh Assembly Constituency	Shri Abul Hussain, Vill. Rangalugaon, P.O. Jumurmor Nagaon, Assam.	-do-

[No. 76/AS-LA/2006]

By Order,
STANDHOPE YUTHILUNG Secy